MEGASTAR FOODS LIMITED

CIN: L15311CH2011PLC033393

Regd. Off: Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II

Chandigarh-160102; **Telephone:** +91 172 2653807, 5005024

Works: Kurali-Ropar Road, Village Solkhian-140108

Distt. Rupnagar, Punjab

Telephone: +91 1881 240403-240406 Website: www.megastarfoods.com; Email: cs@megastarfoods.com

> MFL/CS/2024-25/53 Date: -March 04, 2025

Department of Corporate Services The BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001.

Scrip Code: 541352 Company Symbol: MEGASTAR

Sub: Newspaper Advertisement – Notice of Postal Ballot and E-Voting

Ref: Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR)")

Dear Sir/Madam,

Further to our communication dated March 03, 2025 with regard to Notice of Postal Ballot of the Company and in compliance with Regulations 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisement published today i.e Tuesday, March 04, 2025 confirming the dispatch of notice of Postal Ballot to the Members of Megastar Foods Limited through electronic mode and providing other information relating to evoting by members, pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

The Notice has been published in the following newspapers: -

- a. Financial Express (in English language)
- b. Jansatta (in Hindi Language)

This above information is also available on the Company's website at <a href="https://www.megastarfoods.com/">https://www.megastarfoods.com/</a>

You are requested to take the same on your records.

Yours faithfully,

For Megastar Foods Limited

(Deepali Chhabra)

Company Secretary & Compliance Officer A61299

Encl: a.a.



**National Stock Exchange of India Limited** 

Exchange Plaza,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051.

### **SECURES REFINANCING FOR 2021 CONSTRUCTION LOAN**

# Adani Green Energy raises \$1.06 bn for debt refinance

**AGEL** 

surpasses

12,000 MW

capacity

**FE BUREAU** Mumbai, March 3

ADANI GREEN ENERGY (AGEL) on Monday said it has refinanced its maiden construction facility, with outstanding of \$1.06 billion taken in 2021, to develop a solar-wind hybrid renewable cluster in Rajasthan.

The long-term financing has door-to-door tenure of 19 years with fully amortised debt structure emulating the underlying asset life, the company said.

With this, AGEL has completed its capital management programme for the underlying asset portfolio, which involves securing longterm facilities that are perfectly aligned with the cash

**CASH FLOW** 

■ Loan taken in 2021 for a solar-wind hybrid cluster

■ New financing has a 19-year tenure.

Capital management programme completed ■ Enhances financial

stability and growth

Secures Rated deep access AA+/Stable by to diverse India Ratings, capital CareEdge, Icra

flow lifecycle of that portfolio.

The framework of this programme provides significant benefits through deep access to diverse pools of capital, securing large sums with long duration, the company said.

"This approach not only

enhances financial stability, but also ensures AGEL's ability to continue its growth trajectory and deliver sustainable

The refinancing facility has received a rating of

value creation to its stake-

holders," the company said.

AA+/Stable from three domestic rating firms — India Ratings and CareEdge Ratings

Last week, AGEL said it has surpassed a record 12,000 megawatt (MW) of operational portfolio, the first and only renewable energy company in the country to achieve the feat.

portfolio consists of 8,347.5 MW solar, 1,651 MW wind and 2,259.6 MW wind-solar hybrid capacity. The milestone under-

AGEL's 12,258.1-MW

scores AGEL's commitment to deliver 50,000 MW of green power by 2030, the company said.

Shares of Adani Green on Monday closed up 3.93% at ₹804.50 on the BSE.

### **QUICK PICKS**

### 'Wipro's revenue to grow by 4.5%'

IT services firm Wipro's revenue is likely to increase by about 4.5 per cent in FY26, mainly driven by favourable sectoral trends and recovery in discretionary customer spending, according to alobal rating agency Fitch.

### **Marriott signs 42** deals in 2024

Global hospitality group Marriott International on Monday said in 2024, the company inked 42 deals in the South Asian region, including in India. full-year performance in 2024, with revenue per available room (RevPAR) growth of 11 %.

### **Praveg partners**

subcontinent — one in Mumbai, launched in 2016, and another in Hyderabad, which started in 2022. Last year, Amazon said it would invest an additional \$2 billion in Asia's third-largest

million.

"Advanced domestic manufac-

turing capabilities are accelerat-

ing the development of scalable

solutions, positioning these

### economy to ramp up e-commerce business. **REUTERS**

Amazon's

cloud biz

to invest

\$8.2 bn in

Maharashtra

AMAZON'S CLOUD SER-

**VICES** provider, Amazon Web

Services, will invest about \$8.2

billion in India's western state

of Maharashtra over the next

few years, the information

technology ministry said on

its efforts to pilot local cloud

data storage. According to a

report by International Data

Corporation, the country's

cloud services market — esti-

mated at \$8.3 billion in 2023

- is expected to grow to \$24.2

ment, there will be significant

growth in employment," Min-

ister of Electronics and Infor-

mation Technology Ashwini

Vaishnaw said, adding that the

investments will roll out by

graphics processing units, lat-

est technologies and cloud

management services in India,

two data centers in the Indian

The e-commerce giant runs

Amazon will deploy its own

"Along with the invest-

billion by 2028.

2029-2030.

Vaishnaw said.

India has been stepping up

Monday.

# count amid debt woes

CCD parent cuts store

Outlets down 3% YoY in Q3, while vending machines rose 6%

**VIVEAT SUSAN PINTO** Mumbai, March 3

#### **COFFEE DAY ENTERPRISES** (CDEL), which owns the Cafe Cof-

fee Day (CCD) chain, has cut its store count by 3% in the December quarter (Q3FY25) versus last year, as it seeks to manage its debt obligations, its latest financial statements show. At its peak in FY19, CCD operated 1,752 stores.It nowhas 439 stores (Q3) from 454 stores last year.

At the end of Q3 (of FY25), the Coffee Day group had a debt of ₹1,273 crore, which is lower than the ₹1,289 crore it had reported at the end of the March quarter (Q4) of FY24. Over nearly six years, the group has reduced its debt by 82.35%, data from its financial statements show.

While CCD stores have been slashed to manage debt and other expenses, the number of vending machines has grown by nearly 6% in a year to 55,667 at the end of Q3. The latest addition is just 5% short of CCD's peaking vending machine count of 58,697 in FY20.

Executives at the company were not immediately available for comment on its business strategy or plans.

But sources in the know say

### **RELIEVING BURDEN**

■ Debt reduced to ₹1,273 crore from ₹1,289 crore

in Q4 FY24 ■ Debt cut by 82.35% over six years

■ Vending machines up 6% YoY to 55,667 in Q3

■ Current vending count is 5% below FY20 peak of 58,697

■ Vending machines need less space, easier to manage

that the vending machine business is easier to manage versus cafes or coffee outlets as the machines are installed in offices, retail spaces, malls and multiplexes, requiring limited space and maintenance.

In 2020, rival Tata Consumer had sought to acquire CCD's vending machine business, but had aborted the attempt over valuation concerns. Last year (FY24), Tata Consumer began its own vending machine operations, which it is looking to double to about 4,000 by the end of the current fiscal.

Shares of CDEL, meanwhile, jumped 20% on Monday to hit its upper circuit limit following news of the National Company Law Appellate Tri- was eventually settled by the bunal (NCLAT) overturning

■ Tata Consumer aborted

■ CDEL stock surged 20%

CCD vending business

after NCLAT reversed

insolvency ruling

buyout in 2020

insolvency proceedings against it. CDEL closed trade at ₹25.65 apiece on the BSE on Monday, with nearly 1.84 million shares exchanging hands

on the counter. The NCLAT had set aside the insolvency proceedings against the firm initiated by **IDBI** Trusteeship Services for a default of ₹228.45 crore. This is the second time the group has been given relief against legal proceedings undertaken by lenders. In 2023, IndusInd Bank had pressed insolvency proceedings against CDEL subsidiary Coffee Day Global for a default of Rs 94 crore. This

two firms, assigning the loan

close was backed by investors

## Oberoi Group announces two resorts in Rishikesh

**FE BUREAU** New Delhi, March 3

THE OBEROI GROUP on Monday announced two new resorts in Rishikesh — an 80key luxury resort with 'vilas' branding, and a 120-key fivestar hotel with Trident branding. Both hotels will be managed by EIH, the Oberoi Group's flagship company. Located on a 60-acre site

with the Ganges on three sides, near Rishikesh, the vilas will be developed by Devprayag Ganges Resorts, and the Trident hotel by Jamuna Hotel Enterprises, both entities of The Ladhani Group. Renowned architect Bill Bensley will design both properties. These two resorts are in

addition to the 19 new properties previously announced as

Depository Services Limited(CDSL)

voting shall not be allowed beyond the said date and time.

ID & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).

National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/

o scrutinize the votes received through remote e-voting in a fair and transparent manner.

MD, THE OBEROI GROUP We are delighted to partner with The Ladhani

VIKRAM OBEROI, CEO &

Group on these exceptional resorts

part of EIH's growth strategy, be completed by 2029.

EIH ended Q3 with a highest-ever standalone revenue at

MEGASTAR FOODS LIMITED

CIN: L15311CH2011PLC033393 Regd. Off: Plot No. 807, Industrial Area, Phase-II Chandigarh-160002;

Telephone: +91 172 2653807, 5005024

Works: Kurali-Ropar Road, Village Solkhian-140108 Distt. Rupnagar, Punjab

Felephone: +91 1881 240403-240406 Website: www.megastarfoods.com; Email: cs@megastarfoods.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given to the Shareholders of Megastar Foods Limited ("the Company"), pursuant to

provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 ("the

Act\*) read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as

amended from time to time) ("the rules") and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) and other applicable laws and regulations General Circular No. 9/2024 dated 19th September 2024, General Circular No. 09/2023 dated September 25 2023 read over with all earlier Circulars with particular reference to Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020

and Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 on the subject of passing of ordinary and special resolutions accordance with framework provided in aforesaid circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs Government of India (the "MCA circulars"), Secretarial Standards on General Meeting issued by the Institute

of Company Secretaries of India ("SS-2") and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification (s) or re-enactment(s) thereof for time being in force), that the resolutions contained

n Postal Ballot Notice are proposed to be passed by Shareholders through Postal ballot, only by voting through electronic means in compliance with the applicable provisions of the Act read with MCA Circulars.

The special business proposed to be transacted through Postal Ballot process through e-voting as set out

The dispatch of the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement, through permitted mode i.e.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Companies

Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as

mended from time to time and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing the

acility for voting by electronic means to its members to enable them to cast their votes electronically

hrough e-voting and the business may be transacted through the e-voting services provided by the Central

The instructions for e-voting are given in the Postal Ballot Notice, Members are requested to note the

The e-voting will commence on Wednesday, March 05, 2025 (09:00 A.M.) and will end on Thursday, April

03, 2025 (05:00 P.M.) IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and e-

The voting rights of the members (for voting through e-voting) shall be in proportion to their share of the paid-

up equity share capital of the Company as on Friday, February 28, 2025 (Closing hours) ("Cut-off date")

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners

maintained by the depositories as on the cut-off date (close of business hours) only, is entitled for receiving

the Postal Ballot Notice and for availing the e-voting facility. A person who is not a shareholder as on the

cut-off date should treat the Postal ballot Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution

Any person hold shares in Physical mode as on the cut-off date, may obtain the login ID and sequence

number by sending a request to RTA of the Company M/s Skyline Financial Services Private Limited.

D-153A, 1st Floor, Okhia Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Tel: 011-40450193-97, email:

info@skylinerta.com or to Company at email id: cs@megastarfoods.com. Those persons who hold

shares in Demat mode as on the Cut-off date are requested to view the notes to the Postal Ballot Notice

of the Company on the website of the Company at https://www.megastarfoods.com/ or on the website

of CDSL (www.evotingindia.com) for instructions relating to e-voting. The detailed procedure for obtaining

login ID, password, authentication and exercising e-voting is already provided in the Notes to the Postal

Ballot Notice. The Members are requested to refer to the same. Those Members, who have not updated

their email addresses with the Company are advised to follow the procedure given in note (d) below.

prescribed by SEBI vide Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 03.11.2021

along with prescribed documents by email to Company at cs@megastarfoods.com or to the RTA at

info@skylinerta.com . Any Member who has not received the notice can download the same from the

website of the Company https://www.megastarfoods.com/ and follow the instructions given in the

Notes for obtaining the login details. Members holding shares in Demat mode, please update your email

Member who have not received the Postal Ballot Notice may apply to company by writing to

cs@megastarfoods.com or can visit the website of the Company at www.megastarfoods.com. Postal

Ballot Notice has also been displayed on website of CDSL i.e the agency providing the services of e-

voting at www.evotingindia.com. and on website of BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and

The Board has appointed Mr. Ajay Arora (Membership No. 2191; CP No. 993) Proprietor of A. Arora & Co.

Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot and remote e-voting and

The result of postal ballot through e-voting process shall be declared on or before Saturday, April 05, 2025

at the registered office of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be

placed on the website of the Company www.megastarfoods.com and on the website of CDSL https://

www.evotingindia.com immediately after the result is declared and shall simultaneously be submit to BSE

If Members have any query or issue regarding Postal ballot through e-voting process, they may refer the

Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available

at the download section of https://www.evotingindia.com or call at toll free no. 1800 21 09911 or send a

request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. All grievance connected with the facility for voting by electronic

means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India)

Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel

(East), Mumbai-40013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 21

09911. Member may also contact Ms. Deepali Chhabra, Company Secretary and Compliance Officer of the

Limited and National Stock Exchange of India Limited, where the Company's share are listed.

For registration of email ID with the Company, please provide necessary details vide Form ISR-

is cast by the Member, the vote cannot be modified subsequently by such Member.

n Notice has been considered as unavoidable by the Board of Directors of the Company

electronic means to Members, directors and auditors has been completed on 03.03.2025

including 16 hotels, two luxury boats, and a Nile cruiser, to

₹722 crore and consolidated revenue at ₹831 crore.

Commenting on the partnership, SN Ladhani, chairman of The Ladhani Group & SLMG Beverages, said: "Rishikeshisa destination of immense cultural and natural significance, and we are committed to developing resorts that celebrate its beauty while offering guests world-class experiences. With The Oberoi Group's legendary expertise in hospitality and Bill Bensley's visionary design, we are confident that the two resorts will set new benchmarks in luxury hospitality."

Arjun Oberoi, Executive Chairman, The Oberoi Group, said, "These two resorts reflect our unwavering commitment to expanding our presence in remarkable destinations."

adding another 7,000 rooms South Asia delivered strong

## with IHCL

Hospitality services provider Praveg said it has entered into a partnership with Indian Hotels Company Ltd (IHCL), for management of its resort at Bangaram Island in Lakshadweep. **AGENCIES** 

### **S SHANTHI** Bengaluru, March 3 **AGRITECH VENTURE CAPI-TAL** firm Omnivore is set to ramp up its investments in FY26, targeting startups that develop specialised hardware solutions for key agricultural

Omnivore backs agri hardware startups

challenges. The firm plans to make 4-6 new investments, with cheque sizes ranging between \$2 million and \$7 innovations as strategic interventions for food security and Omnivore is particularly climate resilience. Within our optimistic about startups innoportfolio, Ecozen and Niqo vating in precision farming, Robotics are developing cliwater management, and susmate-smart technologies that tainable agricultural practices. enhance agricultural efficiency

> Omnivore. In FY25, Omnivore made

> and productivity," said Mark

Kahn, managing partner at

nine investments from its third fund, the Omnivore Agritech & Climate Sustainability Fund. The Bengaluru-based firm had raised \$150 million for the

fund's first close in June 2023 aiming to back 25-30 Seed and Series A agritech startups and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Launched in April 2022, the fund's first including KfW, Self Reliant India (SRI) Fund, FMO, SIFEM, International Finance Corporation (IFC) with support from the Bill & Melinda Gates Foundation, Inclusive Agritech Facility, Louis Dreyfus Company Ventures, and the Dutch Good Growth Fund (DGGF). Omnivore also sees India's

manufacturing resurgence as a major investment opportunity. "Beyond traditional low-cost production, the ecosystem is powered by strategic government policies, robust technological infrastructure, and a vibrant startup community. Emerging technologies and a skilled workforce are propelling India towards becoming a global manufacturing hub,"Kahn said.

### MEDICAMEN Biotech Limited MEDICAMEN BIOTECH LIMITED

Registered Office: 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi, 110019, India

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") No. 01 of the Members of Medicamen Biotech Limited ("the Company" / "MBL") will be held on Wednesday, March

26, 2025, at 12:00 Noon through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"

Email: cs@medicamen.com | Website: www.medicamen.com

with the provisions of sections 108 and other applicable provisions, if any, of t Companies Act, 2013 ('the Act') (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), read with General Circula No. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, and various subseque circulars, read with Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 as issued by Ministry Corporate affairs (collectively referred to as ('MCA Circulars')) from time to time, permitted the companies to conduct General Meeting ("the Meeting") through Video Conferencing ("VC" facility or other Audio Visual means ("OAVM"), without the physical presence of the Members a a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") SEB Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"

n terms of the aforesaid Circulars, Notice convening the EGM of the Company has been dispatche only through electronic mode (i.e. mail) to the members who have registered their E-mail IDs with the Depository Participant(s)/Company. The Company completed the dispatch of the Notice of the

and MCA Circulars, Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held through

VC/OAVM on Wednesday, March 26, 2025, at 12:00 Noon (IST). The venue deemed for the EGN

Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of SEBI LODR Regulations and Secretaria Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is pleased to provide to its Members, the facility to exercise their right to vote by remote e-voting or e-voting during the EGM. The Company has engaged the services of MUFG Intime ndia Private Limited (MIPL) as the Agency to provide an e-voting platform to the Members of the Company. The details relating to e-voting in terms of the Act and the relevant Rules are as under All the businesses as set out in the Notice of EGM may be transacted through remote e-voting

or e-voting during the EGM. The remote electronic voting will commence from Sunday, March 23, 2025, at 9:00 A.M. and ends on Tuesday, March 25, 2025, at 5:00 P.M. No remote e-voting shall be allowed beyond

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as of Wednesday, March 19, 2025 ("cut-off

date"). Any person who acquires shares of the company and becomes a member of the

company after the dispatch of the Notice of EGM and holds shares as on the cut-off date, may cast his/her vote through remote e-voting or e-voting during the EGM by obtaining the Login-ID and password by sending a request to enotices@in.mpms.mufg.com and Only those members who will be present at the EGM through VC/OAVM facility but have not already cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote through the e-voting system

The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting during the EGM is Wednesday, March 19, 2025 ("Cut-off date"). A Member may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote

e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficia Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting or e-voting during the EGM.

The Notice of the EGM is displayed on the website of the Company, i.e. www.medicamen.com.

BSE Limited i.e www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and available on the website of RTA i.e www.in.mpms.mufg.com. The manner in which the members, who are holding shares in dematerialized mode or physical form or who have not registered their email addresses with their Depository/the Company, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the EGM will be

. In case shareholders / members have any queries regarding login / e-voting, they may send an email to enotices@in.mpms.mufg.com or contact on: - Tel: 022-49186000

n case of any grievances connected with e-voting facility, please contact Mr. Swapan Kuma Naskar, Associate Vice President & Head (North India) Link Intime India Pvt. Ltd Noble Heights 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi- 110058 or send an email to swapann@linkintime.co.in or call or 011- 41410591. Manner of Registration of e-mail addresses:

In case shares are held in physical mode, please update your e-mail ID with enotices@in.mpms.mufg.com. In case shares are held in demat mode, please update your e-mail ID with your relevant Depository Participant. By order of the Board of Directors

> Parul Choudhary Company Secretary & Compliance Officer Membership No. 44157

financialexp.epapr.in

For Medicamen Biotech Limited

## Foxconn's industrial PC unit commences India operations

**NARAYANAN V** Chennai, March 3

**ENNOCONN CORP, A** Taiwan-based Industrial IoT and hardware manufacturer and a Foxconn subsidiary, has started its India operations, focusing on the country's industrial automation and digital transformation market.

"Ennoconn has already registered a company in Tamil Nadu with plans to bring their products to the Indian market," a source aware of the development told FE.

Ennoconn is the industrial PC (IPC) unit of Taiwanese electronics giant Hon Hai Precision Industry Co (Foxconn). It specialises in manufacturing industrial hardware and software solutions, including embedded motherboards, modules, embedded computer systems, box computers, 5G computing platforms, and 4K/8K displays.

Industrial PCs are high-performance, rugged computing systems designed for industrial applications in manufacturing, automation, transportation, energy, and healthcare. At present, the market is dominated by players including Siemens, Taiwanbased Advantech and Rockwell Automation among others.

when Foxconn is reportedly looking to expand beyond iPhone assembly into areas such as information and communication technology (ICT) products and AI servers. It remains unclear whether Enno-

Ennoconn's foray comes at a time

conn will leverage Foxconn's facilities for production or establish its own manufacturing base in India. Ennoconn Corp and Foxconn did not respond to FE's queries regarding the company's India plans. Foxconn currently operates a mas-

sive Apple iPhone assembly plant in Sriperumbudur, Tamil Nadu, employ-

### **EXPANSION PLANS**



■ Foxconn expanding beyond iPhone assembly into ICT and Al servers

Specialises in industrial PCs. 5G platforms, and 4K/8K displays

■ Competes with Siemens, Advantech, and Rockwell **Automation** 

Unclear if Ennoconn will use Foxconn's India plants or build its own

■ Investing ₹25,000 crore in a new Karnataka facility

ing 40,000 workers. The company is also investing?25,000 crore to build a large iPhone assembly and electronics manufacturing facility near Doddaballapur, Karnataka.

The source also added that Ennoconn's India entry could be part of its broader expansion plans in collaboration with Japan's Sharp Corporation. Last year, the two companies partnered with aims to develop new businesses in the smart retail and energy sectors across Asia.

### Jindal Power to acquire Bhadreshwar Vidyut for ₹500 crore

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, March 3

**JINDAL POWER LIMITED** is set to acquire Bhadreshwar Vidyut for nearly ₹500 crore as the lenders of the Gujarat-based thermal power producer have approved its bid.

The Committee of Creditors (CoC) of Bhadreshwar Vidyut, which is currently going through an insolvency resolution process, has voted in favour of the resolution plan by Jindal Power Limited (JPL), a Naveen Jindal Group company, according to industry sources.

As per the provisions of the

Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), the resolution professional of the debt-ridden thermal power producer will send the plan to the National Company Law Tribunal for final approval.

A source close to the deal said,"Jindal Powerwas the highest bidder in the second challenge process. The company will now work towards completing the acquisition within the next six months".

In a rigorous multi-round bidding, each participants were given a chance to improve their offers. Eventually, Jindal Power emerged as the highest and sole bidder in the final round, he added. JPL plans to fund its around ₹500 crore bid entirely through internal accruals, and committed ₹25-50 crore additionally for capital expenditure to ensure operational efficiency post-acquisition, he noted.

sition will be crucial for a strategic expansion of the Jindal Group.

Chandigarh

After completion, the acqui-

Company at cs@megastarfoods.com or +91 1881 240403. Date: 03.03.2025

Place: Chandigarh

For Megastar Foods Limited

Chairman cum Managing Director

Vikas Goel

DIN: 05122585

Place: New Delhi

अधिकत प्राधिकारी

### सावधानी सूचना

आम जनता को ऐसे व्यक्तियों /बेईमान एजेंसियों से सावधान रहने के लिए आगाह किया जाता है जो व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज (इंडिया) लि. के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और धोखाधडी से लाभ कमाने के लिए कथित तौर पर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे निवेश अवसर प्रदान करने वाले स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज (इंडिया) लि. या स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप से जुड़े होने का दावा करने वाले ऐसे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रसारित किए जा रहे किसी भी संचार/सलाह में शामिल होने या उस पर भरोसा करने से बचें। आगे यह भी सुचित किया जाता है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज (इंडिया) लि. किसी भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंस्टीट्यूशनल अकाउंट या एससी-आईएटीओपी जैसे मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ट्रेडिंग सलाह की पेशकश नहीं करता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज (इंडिया) लि. और/या स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप उपर्युक्त चैनलों के तहत प्रदान की गई सलाह या जानकारी पर भरोसा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा होने वाली किसी भी हानि/नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

> कृते स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज (इंडिया) लि. दूसरा तल, 23-25 एम.जी. रोड, फोर्ट, महाराष्ट्र, मुंबई - 400 001

> > मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएन: L15311CH2011PLC033393

. पंजीकृत कार्यालय : भूखंड सं. 807, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-11, चंडीगढ्- 160002

दूरभाष: +91 172 2653807, 5005024 संकर्म : कुराली-रोपड़ मार्ग, ग्राम सोल्खियां- १४०१०८, जनपद रूपनगर, पंजाब

दुरभाष : +91 1881 240403.240406ए वेबसाइट : www.megastarfoods.com,

ई-मेल : cs@megastarfoods.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार,

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (समय—समय पर संशोधित) ("नियम") के नियम 20 और 22 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व

और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम) के विनियम 44 और अन्य लागू कानूनों और विनियमों,

सामान्य परिपत्र संख्या ९/२०२४ दिनांक १९ सितंबर २०२४, सामान्य परिपत्र संख्या ०९/२०२३ दिनांक २५ सितंबर २०२३ को सभी 🖡

पहले के परिपत्रों के साथ पढ़ा गया, विशेष रूप से परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और परिपत्र संख्या के संदर्भ

में। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्रों में दिए गए ढांचे के अनुसार साधारण

और विशेष प्रस्तावों को पारित करने के विषय पर 8 अप्रैल, 2020 की तारीख के आदेश संख्या 14/2020 के अनुसार, भारतीय 🛮 कंपनी सचिव संस्थान ("एसएस–2") द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और 📗

विनियमन (किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित), कि पोस्टल बैलट नोटिस में निहित प्रस्तावों

को शेयरधारकों द्वारा एमसीए परिपत्रों के साथ अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

करके पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है। नोटिस में निर्धारित ई–वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलट प्रक्रिया

सदस्यों, निदेशकों और लेखापरीक्षकों को अनुमत माध्यम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुपालन में, समय–समय

पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और 22 तथा सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के

अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे ई–वोटिंग के

माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की

समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई—वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और 📗

🖪. सदस्यों के वोटिंग अधिकार (ई—वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए) शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025 (समापन समय) ("कट ऑफ 🖡

तिथि") को कंपनी की चकता इक्विटी शेयर पंजी में उनके हिस्से के अनपात में होंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के

रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि (व्यावसायिक घंटों के बंद होने)

पर दर्ज है, केवल पोस्टल बैलट नोटिस प्राप्त करने और ई—वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए हकदार है। एक व्यक्ति 📗

जो कट ऑफ तिथि तक शेयरधारक नहीं है, उसे पोस्टल बैलट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए मानना चाहिए।

कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को भौतिक मोड में शेयर रखता है, वह कंपनी के आरटीए मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल

सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– ।, नई दिल्ली–110020, फोनः 011–40450193–97, 🖡

ईमेल : info@skylinerta.com या कंपनी को ईमेल आईडी : cs@megastarfoods.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन

आईडी और अनुक्रम संख्या प्राप्त कर सकता है। वे व्यक्ति जो कट—ऑफ तिथि तक डीमैट मोड में शेयर रखते हैं, उनसे

अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों के लिए कंपनी की वेबसाइट https://www.megastarfoods.com/ पर या

सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर कंपनी के पोस्टल बैलट नोटिस के नोट्स देखें। लॉगिन आईडी,

पासवर्ड, प्रमाणीकरण और ई–वोटिंग प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही पोस्टल बैलेट नोटिस के नोट्स में दी गई

है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसका संदर्भ लें। जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं,

कंपनी के साथ ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए, कृपया सेबी द्वारा निर्धारित परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/

MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03.11.2021 के अनुसार फॉर्म ISR-1 के माध्यम से आवश्यक विवरण

प्रदान करें और निर्धारित दस्तावेजों के साथ कंपनी को cs@megastarfoods.com पर या आरटीए को info@skylinerta.com

पर ईमेल करें। कोई भी सदस्य जिसे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वह कंपनी की वेबसाइट https://www.megastarfoods.com/

से इसे डाउनलोड कर सकता है और लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए नोट्स में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकता 🖡

है। डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्यगण, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपना ईमेल 🖡

ड. जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट नोटिस नहीं मिला है, वे cs@megastarfoods.com पर लिखकर कंपनी में आवेदन कर 🖡

बोर्ड ने श्री अजय अरोड़ा (सदस्यता संख्या 2191; सीपी संख्या 993) ए. अरोड़ा एंड कंपनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के प्रोपराइटर

को पोस्टल बैलेट और रिमोट ई—वोटिंग के संचालन और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्राप्त

ई—वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट का परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 05 अप्रैल, 2025 को या

उससे पहले घोषित किया जाएगा। घोषित परिणाम, स्क्रृटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद कंपनी

की वेबसाइट www.megastarfoods.com और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर डाल दिए

जाएंगे और साथ ही बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, जहां 🖡

यदि सदस्यों के पास ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो वे

https://www.evotingindia.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू)

और शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते 📗

हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से

जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग,

25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई—40013 को संबोधित

की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911

पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कंपनी की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सृश्री दीपाली छाबड़ा से

सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट www.megastarfoods.com पर जा सकते हैं। पोस्टल बैलेट सूचना सीडीएसएल की

यानी ई—वोटिंग की सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी की वेबसाइट www.evotingindia.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com/ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट

उन्हें नीचे नोट (घ) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाती है।

एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है. तो उस वोट को ऐसे सदस्य द्वारा बाद में संशोधित 🖡

ई-वोटिंग के लिए निर्देश डाक मतपत्र नोटिस में दिए गए हैं, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें **क.** ई—वोटिंग बुधवार, 05 मार्च, 2025 (09:00 पूर्वाह्र) से शुरू होगी और गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 (05:00 अपराह्र) आईएसटी पर

के माध्यम से किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष व्यवसाय को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपरिहार्य माना गया है।

नोटिस भेजने का कार्य 03.03.2025 को पूरा हो गया है।

गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से कारोबार किया जा सके।

समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी।

आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं।

स्थान : चंडीगढ़

दिनांक : 03-03-2025

https://www.nseindia.com/ पर भी प्रदर्शित किया गया है।

वोटों की जांच करने के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

### बजाज फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑफ पुणे-अहमदनगर, विमान नगर, पुणे - 411014

शाखा कार्यालयः बजाज फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी मंजिल, शीला शॉपी, खसरा नंबर 3673/3/1, संजय चौक, सामने। होटल मिडटाउन, जीटी रोड, पानीपत, हरियाणा 132103

#### कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ परिशिष्ट-IV के अनुसार) जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा बजाज फाइनेंस लिमिटेंड (बीएफएल) के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सुचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर सुचना में निम्नलिखित उल्लिखित कुल बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा माँग सुचना ('सुचना') निर्गत की थी। कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) के राशि के पुनभूगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों) को तथा जनसामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड की ओर से कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों

के उपभोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार(रों) को तथा जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा भुगतान/वसूली की तिथि तक अनुबंध दर पर उस पर भावी ब्याज और लागतों, प्रभारों आदि हेतु बजाज फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जर -	दार का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा -	(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।
ऋण खाता सं./कर्जदार( रों )/बंधककर्ता( ओ )/ जमानती( यों ) का नाम तथा पता	प्रतिभूत अचल सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि तथा धारा 13(2) के तहत सूचना राशि तथा कब्जे की तिथि
517FSP43304201 निराला हैंडलूम (कर्जदार) पता - 955/9 काशी गिरि मंदिर के सामने, सनोली रोड, पानीपत, हरियाणा- 132103 दुर्गा प्रसाद (सह-कर्जदार) और सोनिया सुंदर (सह-कर्जदार) और योगेश प्रसाद (सह-कर्जदार) सभी पताः- मकान नं. 1476 न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पानीपत, हरियाणा-132103	संपत्ति का समस्त भाग, दुकान नं. 8, क्षेत्रफल 69.79 वर्ग गज, वार्ड नं. 9 में स्थित, नगर निगम की सीमा के भीतर। तहसील और जिला पानीपत, वीर जी स्वीट्स के सामने, सनोली रोड, पानीपत, हरियाणा-132103। सीमाएँ - पूर्वः - गली, पश्चिमः - मिठाई की दुकान, उत्तरः - नंद लाल, दक्षिणः - अशोक कुमार शर्मा।	21/11/2024 रु. 50,04,732/- (रुपये पचास लाख चार हजार सात सौ बत्तीस मात्र तिथि 15.11.2024 तक  कब्जे की तिथि 28/02/2025
विधि . ०४ ०२ २०२६ - स्थान - मानीमन		गाधिकारी क्रमान फाटनेंग क्रिपिट

किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम 30(6) (ए) के मामले में

क्षेत्रीय निदेशक- उत्तरी क्षेत्र

ऑर्ट्स डिजिटल टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 249–ए प्राउंड फ्लोर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—III, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली—110020 में है याचिकाकर्ता आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 र्क धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी व रुसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाती है। 24 फरवरी, 2025 को आयोजित असाधारण आम बैटक में पारित विशेष प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय ''दिल्ली राज्य'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में बदलने में सक्षम बनाया जाएगा कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए एव हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक-उत्तरी क्षेत्र को पते बी-2 विंग् द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 पर इस नोटिस वे प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी की एक प्रति के साथ उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर पहुंचा सकता है या पहुंचा सकता है य

> निदेशक मंडल के आदेश र मेसर्स ऑर्टस डिजिटल टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संजीव बख्शी (निदेशक डीनः 10699526 पताः हाउस नंबर एल–113, मेट्रो हॉस्पिटल के पास, सेक्टर–11 गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश — 20130

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड सीआईएन : L92100DL1994PLCO59093 पंजीकृत कार्यालयः 37, द्वितीय तल, रानी झांसी मार्ग, मोतिया खान, पहाड़गंज, नई दिल्ली— 110055 ई-मेल आईडी : cbnl.delhi@gmail.com, वेबसाइट : www.sadhna.com फोन : 91-11-23552627, फैक्स नं.: 91-11-23524610

तद्वारा नोटिस दिया जाता है कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक बृहस्पतिवार 27 मार्च, 2025 को दोप. 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीएस) / अन्

ऑडियो विज्अल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से होगी। दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 को ०५ मई २०२० के परिपत्र संख्या २०/२०२० ('एमसीए') के साथ पठित, २५ सितंबर २०२३ व परिपत्र संख्या ०९/२०२३, १९ सितंबर २०२४ के परिपत्र संख्या ०९/२०२४ और सेबी द्वारा जार्र परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 ("परिपत्र'') क सेबी द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएफडी–पीओडी–२ / पी / सीआईआर / 2024 / 133 के साथ पठित करके, और भौतिक प्रतिय भेजने में शामिल कठिनाइयों के कारण, ईजीएम की सूचना सदस्यों को भेज दी गई है कंपनी जिसका ईमेल 21 फरवरी 2025 को कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत है। सदस्य ध्यान दें वि कंपनी ईजीएम की सचना की भौतिक / हार्ड कॉपी नहीं भेजेगी।

चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, इसलिए परिपत्रों व . अनुसार, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, ईजीएम के लिए सदस्ये द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल प

. पंजीकत / अपडेट नहीं किए हैं. उनसे अनरोध है कि वे कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यहां 'आरटीए' के रूप में संदर्भित) व साथ compliances@skylinerta.com पर इसे पंजीकृत/अपडेट करें। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://sadhna.com/ और स्टॉक

एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और एमएसईआई लिमिटेड और एनएसडीएल यार्न इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधाने

के अनुसार, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और विनियम, 2015 के नियम 20 प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और नोटिस में निर्धारित व्यवसाय एनएसडीएल द्वार दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्य निम्नलिखित नोट कर सकते हैं: . कट—ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को शेयर रखने वाले सदस्य नेशनत सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम र ईजीएम की सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय(ओं) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई—वोटिंग अवधि सोमवार, 24 मार्च, 2025 को प्रातः 9 बजे से शुरू होकर बुधवार 26 मार्च, 2025 को सायं 5 बजे तक चलेगी।

ii. कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट—ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से वोट देने वाले सदस्य ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे

iii. ईजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, और ईजीएम में वीसी सुविध के माध्यम से उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे ईजीएम के दौरान

कंपनी ने ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांचने के लिए मेसर्स वी. कुमार रंड एसोसिएट्स के प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री विवेक कुमार को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर : 1800–222–990 पर रनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी अन्य शिकायत व लिए, सदस्यगण निम्नलिखित संपर्क जानकारी पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं : फोन नंबर +91 22 24994545, +91 22 24994559

बोर्ड के आदेशानुसार कृते साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड दिनाँक : 28/02/2025

नाम : बाल मुकुंद तिवारी पबंध निदेशक डीआईएन : 02566683

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ORIX

तिथि : 25 फरवरी, 2025

B FINSERV

ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में ओएस ऑटो फाइनेशियल सर्विसेज लिपिटेड के नाम से) (ओरिक्स ऑटो इन्फ्रास्ट्रक्यर सर्विसेज लिपिटेड की सहायक कम्पनी) पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर ७४, मरील को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अधेरी-कुर्ला रोड, अधेरी (पू.), मुंबई - ४०० ०५० हुरभाष: +91 22 2859 5093/6707 0100 फैक्स: + 91 22 2852 8549 इंगेलः info@orixindia.com | www.orixindia.com | सीआईएनः U74900MH2006PLC163937

कब्जा सुचना (प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 का नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV)

सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमायली, 2002 के नियम 3 के साथ पटित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कथित सुचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते मांग खुचना जारी की गयी थी। ऋणधारक इस राशि तथा भावी व्याज एवं अन्य प्रभारों को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

नैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम, 2002) के अंतर्गत **ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेशियल** 

करते हुए वहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्नदार, और आम जनता को एतदवारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन समझौते

के अनुसार ब्याज सहित मांग सुचना में वर्णित राशि के लिए **ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनैशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। क्र. ऋण खाता सं. अचल सम्पत्तियों मांग सचना की किये गये कब्जे

20020200000	सह-कर्जदार का नाम	तिथि तथा राशि	की तिथि एवं प्रकार	का विवरण
LN000000020054	मेससं राहुलं विल्डिंग मटेरियल कैरियर,      मेससं अरय एंटरप्राइजेज,      हेमंत यादव (स्वर्गीय राजेश कुमार यादव के उपलब्ध कानूनी उत्तराधिकारी की हैसियत से)      हेमंत यादव	17-दिस2024 तथा रु. S4,72,573.34/-	25 फरवरी, 2025 (सांकेतिक कब्जा)	संपूर्ण प्रथम तल का समस्त भाग, कवर्ड क्षेत्रफल 129.824 वर्ग मीटर लगभग (1397.54 वर्ग फीट) जिसमें लॉबी, रसोइं, भोजन क्षेत्र, तीन बेडरूम, तीन शौचालय, हुस शामिल हैं, स्टिल्ट/ग्राउंड फ्लोर और टेरेस फ्लोर पर आनुपातिक हिस्से के साध-साध अविभाजित, अविभाजित और आनुपातिक 1/4 हिस्सा आवासीय प्लॉट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर टीडब्ल्यूएन-003, सेरेनिटी एंडबे-एवेन्यू, आवासीय कॉलोनी में स्थित, वाटिका इंडिया नेबस्ट, सेक्टर- 84, गांच सिही, सिकंदरपुर बढ़ा, शिकोहपुर, तहसीलः मानेसर, जिलाः गुरुग्राम, हरियाणा-122004 और इसके आसपास स्थित है और पूरा प्लॉट को सीमाएं: पूर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः सड़क उत्तरः सड़क दक्षिणः अन्य प्लॉट

स्थान : दिल्ली ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release, directly or indirectly, outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to it in the Letter of Offer dated February 11, 2025 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE" and together with BSE, "Stock Exchanges").



### JYOTI STRUCTURES LIMITED

Our Company was incorporated as "Jyoti Structurers Private Limited" on May 27, 1974 as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the Certificate of Incorporation by the Registrar of Companies, Mumbai (the "RoC"). Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to "Jyoti Structures Limited" on October 21, 1974, vide a fresh certificate of incorporation issued by the RoC.

Registered Office: 6th Floor, Valecha Chambers, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053, Maharashtra, India, Contact person: Sonali Krishnaji Gaikwad, Company Secretary and Compliance Officer

Telephone: 022-40915000 | E-mail id: investor@jsl.co.in | Website: www.jyotistructures.in | Corporate Identity Number: L45200MH1974PLC017494 OUR COMPANY IS A PROFESSIONALLY MANAGED COMPANY AND DOES NOT HAVE AN IDENTIFIABLE PROMOTER

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF JYOTI STRUCTURES LIMITED

(OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY ISSUE OF UP TO 31,19,29,934 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹2/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR

CASH AT A PRICE OF ₹16 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹14 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹49,908.79 LAKHS' ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 9 RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 26 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FEBRUARY 10, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 325 OF THE LETTER OF OFFER. "Assuming full subscription. Subject to finalisation of the Basis of Allotment

### ATTENTION INVESTORS

#### NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY -CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO LETTER OF OFFER DATED FEBRUARY 11, 2025

This notice should be read in conjunction with the Letter of Offer dated February 11, 2025, filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the ALOF and CAF that have been sent to the Eligible Equity Shareholders of the Company. The Eligible Equity Shareholders are requested to please note the This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, February 17, 2025 and was scheduled to

close on Monday, March 03, 2025 has now been extended from Monday, March 03, 2025 to Monday, March 10, 2025, by the Rights issue Committee in its Meeting held on March 03, 2025 in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Monday, March 10, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Monday, March 10, 2025.

REVISED ISSUE S	CHEDULE
Issue Opened on	MONDAY, 17™ FEBRUARY, 2025
Issue Closing Date*	MONDAY, 10 <sup>™</sup> MARCH, 2025
Finalization of Basis of Allotment (on or about)	MONDAY, 17 <sup>™</sup> MARCH, 2025
Date of Allotment (on or about)	TUESDAY, 18 <sup>™</sup> MARCH, 2025
Date of credit (on or about)	WEDNESDAY, 19 <sup>™</sup> MARCH, 2025
	EDIDAY AND MADEL AND

\*Our Board may, however, decide to further extend the Issue Period as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Investors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms on or before the Issue Closing Date. Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited

This Corrigendum cum addendum shall be available on the respective websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of the Company at www.jyotistructures.in.

Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated February 11, 2025, except for modification in the issue closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative timetable of post issue activities on account of extension of Issue closing date.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, COMMON APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM CUM ADDENDUM.

For JYOTI STRUCTURES LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Sonali Krishnaji Gaikwad

Company Secretary and Compliance Officer

नुल ओ/एस राशि (रू.)

Jyoti Structures Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and in this regard has filed a Letter of Offer dated February 11, 2025 with the Securities and Exchange Board of India, the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited. The Letter of Offer shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com; the website of the Company at www.jvotistructures.in and the website of the Lead Manager at www.arihantcapital.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the LOF. This Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act") or and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States, except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state of the United States.

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are being offered and sold in offshore transactions outside the United States in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Entitlements and Rights Equity Shares is permitted under the laws of such jurisdiction. Adfactors 650/25

लैन/उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/

## नियुक्तियां

इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पत्तन, पोत परिवहन एवं जतमार्ग मंत्रातय, भारत सरकार के अधीन संयुक्त उद्यम)

cs@megastarfoods.com पर या +91 1881 240403 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

चौथी मंजिल, निर्माण घवन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बिल्डींग, एम. पी. मार्च, मजगांव (पूर्व), मुंबई - 400010 022-6656 6335 부족제 리.: 022-6656 6336, ई-리ল : hn@iprcl.in CIN No: U60300DL2015PLC282703 (An ISO 9001, 14001, 45001 & 37001 Certified Company)

#### विज्ञापन सं. आयपीआरसीएल/मृंबई/मा.सं./भर्ती 01/2025 निम्नलिखित पदों के लिए अनुभव प्राप्त तथा परिणाम उन्मुख भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित

1) मुख्य महाप्रबंधक (संचालन एवं बीडी)/ई8 - 01 मुंबई, 2) मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं)/ई8 -01 कोलकाता, 3) मुख्य महाप्रबंधक (एस एवं टी)/ई8 - 01 मुंबई, 4) मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)/ई8 - 1 मुंबई, 5) मुख्य महाप्रबंधक (विद्युत)/ई8 - 01 मुंबई, 6) मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं)/ई8 - 03 (01 विशाखापव्रनम, 01 चेन्नई, 01 अहमदाबाद), 7) संयुक्त महाप्रबंधक (मा.सं.) ई5/उप महाप्रबंधक (मा.सं.) ई4 - 01 मुंबई, 8) उप महाप्रबंधक (सिविल)/ई4 - 01 मुंबई, 9) उप महाप्रबंधक (ई4)/वरिष्ठ प्रबंधक (ई3)/प्रबंधक (ई2) (परियोजनाएं) - 01 विशाखापट्टनम्, 10) वरिष्ठ प्रबंधक (ई3)/प्रबंधक (ई2) (ट्रैक) - 01 मुंबई, 11) वरिष्ठ प्रबंधक (ई3)/प्रबंधक (ई2) (प्रापण तज्ज्ञ) - 01 मुंबई, 12) प्रबंधक (पी.वे) ई2 - 04 (01 कुसमुंडा, 01 तुतिकोरीन, 01 गेवरा, 01 कोलकाता), 13) प्रबंधक (यातायात) ईं2 - 3 (01 दिप्का, 01 जुनाडीह, 01 लक्ष्मण), 14) प्रबंधक (सिविल) ई2 - 01 विजयवाडा, 15) प्रबंधक (ई2)/उप प्रबंधक (ई1) (आईटी) - 01 मुंबई, 16) उप प्रबंधक (एस एवं टी)/ई1 – 01 मुंबई, 17) उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ई1 – 01 भुवनेश्वर, 18) परियोजना स्थल अभियंता (सिविल-10, विद्युत-04, एस एवं टी-03 तथा लोको/यांत्रिकी-01 भारत में कही भी), 19) स्नातक/डिप्लोमा अभियंता प्रशिक्ष शिक्षार्थी (सिविल -

पात्रता, मानदंड और आवेदन पत्र का प्रारुप आदि के लिए, कृपया वेबसाइट www.ipa.nic.in पर जाएं, फिर Whats New/Ports/Other Organization Advertisement/Indian Port Rail & Ropeway Corporation Ltd. पर क्लिक करें या वेबसाइट www.iprcl.in पर जाकर HR/Vacancy पर क्लिक करें। आईपीआरसीएल कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यह विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने से 15 दिन तक है। आवेदन निधरित प्रारूप में अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों कि प्रतियों एवं विस्तृत आत्मवृत्त के साथ केवल हाक या कृरियर द्वारा नियत तिथि तक निम्नलिखित पर्ते पर भेजा जाना चाहिए: मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.), इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे निगम लिमिटेड, चौथी मंजिल, निर्माण भवन, एम. पी. मार्ग, मज़गांव (पूर्व), मुंबई - 400 010

07, विद्युत - 04, यांत्रिकी - 02 भारत में कही भी)

#### O SATYA Micro Rous Finance Private Ltd

पता 2: खेत नंबर 660 और 669, ग्राम-देवता, परगना-दनकौर,

तहसील एवं जिला- गौतमबद्ध नगर, उ.प्र.-203202

स्थानः गौतम बुद्ध नगर, शाहदरा, मथुरा

दिनाक: 04.03.2025

कृते मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 05122585

हस्ता./-

(विकास गोयल)

पंजीकृत कार्यालय:-519, 5वाँ मंजिल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020 कॉपोर्नेट कार्यालय:-7वीं मंजिल, प्रायस हाइटस, सेक्टर 125, नोएडा-201303

Place: Mumbai

Date: March 03, 2025

#### मांग सूचना वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत सूचना

एतदब्वारा सचित किया जाता है कि सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएचएफपीएल) से लाभ उठाने वाले निम्नलिखित कर्जदार/ऋणकर्ता एसएमएचएफपीएल को अपने ऋण की समान मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास वैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्जदार(रों) ने एसएमएचएफपीएल को अचल संपत्ति/संपत्तियों की प्रतिभृति प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और कर्जदार/रों द्वारा एसएमएचएफपीएल को आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। कर्जदार(रॉ) के साथ-साथ आम जनता को एतहुवारा सुचित किया जाता है कि अधोहरताक्षरी एसएमएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभृति ऋणदाता ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित कर्जदार इस नीटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभृति ऋणदाता को प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह

张.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) के नाम/ऋण खाता सं./शाखा	मांग सूचना की तिथि एवं गति	प्रतिभूत आस्ति(यों)/असल सम्पन्ति(यों) का विवस्ण
1.	HLNHFLMTJ0001507/शाखाः मधुरा  1. रनेहा कुमारी  2. विधिन  3. नरेश  पता 1: महोली रोड, माँ वैष्णो धाम कॉलोनी एटीवी, मधुरा, महोली बी.ओ2, मथुरा, उत्तर प्रदेश, पिनकोड- 281004, भारत  पता 2: प्लॉट नंबर-22 खसरा नंबर-152 निधियन कॉलोनी मीजा  नरहीली तहसील और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004 के दक्षिणी भाग  पर घर	21-02-2025 & ₹ 12,55,781/-	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग:- प्लॉट नंबर-22 के दक्षिण भाग पर मकान, खसरा नंबर-152 निधियन कॉलोनी मौजा नरहौली तहसील और जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281004, सीमाएं:- उत्तर: 50 फीट, प्लॉट नंबर 22 का उत्तरी भाग, दक्षिण: 50 फीट, प्लॉट नंबर 21, पूर्व: 15 फीट रेलवे लाइन, पश्चिम: 15 फीट, सड़क 18 फीट चीड़ी
2.	1200228 /शास्ताः चमुना विहार 1.शीला 2. वीरेंद्र 3. राकेश 4. हिना पता 1: संपत्ति नंबर 264, खसरा नंबर 4517/3674/3147/704, गांव- चंद्रावली उर्फ शहदरा गली नंबर 6, ज्वाला नगर, इलाका, शाहदरा, दिल्ली-110,032	21-02-2025 & ₹ 11,19,897/-	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः- संपत्ति नंबर 264, खसरा नंबर 4517/3674/3147/704, गांव- चंद्रावली ठर्फ शाहदरा गली नंबर 6, ज्वाला नगर, इलाका, शाहदरा, दिल्ली- 110032, सीमाएं:- उत्तरः गली नंबर 4, दक्षिणः अन्य संपत्ति, पूर्वः गली, पश्चिमः मोती राम की संपत्ति
3.	HLNLAPNGL0001330 /शाखाः उत्तम नगर  1. जयवती  2. नवीन कुमार  3. धीरेन्द्रसिंह  पता 1: ग्राम-देवता. देवटा बी.ओ1, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-203202, भारत	21-02-2025 & ₹ 11,21,520/-	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः खेत संख्या 660 और 669, गांव- देवता, परगना-दनकौर, तहसील और जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 203202, सीमाएं: उत्तर-पूर्वः अजीत सिंह की जमीन, दक्षिण-पश्चिमः रास्ता 18 फीट चौड़ा, दक्षिण-पूर्वः जगवीर की जमीन, उत्तर-पश्चिमः राजवीर



to the Demat accounts of the Renouncee (s) on or prior to the Issue Closing Date.

### मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः टीसी नंबर 14/2074-7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन रोड, तिरूवनंतपुरम - 695 034, सीआईएन नंबर - U65922KL2010PLC025624, कॉर्पोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिणी क्रेस्केंजो, प्लॉट नंबर सी38 और सी39, बांद्रा कुर्ला

कॉम्लेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई-400051 ईमेल आईडी: authorized.officer@muthoot.com माग सुचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा 13 (२) के अंतर्गत ाबिक नीचे हस्ताक्षरकर्ता, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (''एमएचएफसीएल'') के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं), गारंटर(ओं) को संबंधित नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत और शुल्क सहित संपूर्ण बकाया का भूगतान करके कंपनी के प्रति अपनी देयता का पूर्ण निर्वहन करने और नीचे दिए गए नोटिस के प्रकाशन के रूप में आपको वैकल्पिक सेवा के रूप में ऑहवान किया गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित परिसंपत्तियां क्रमशः उधारकर्ता(ओं), सह–उधारकर्ता(ओं), गारंटर(ओं) द्वारा एमएचएफसीएल को गिरवी रखी गई हैं।

सं.	गारंटर का नाम	तिथि	की तारीख	भविष्य में लागू ब्याज
'	ऋण खाता संख्या. MHFLCONBHW000005003714 1.कमलेश कुमार जाट 2.मंजू कुमारी जाट	29—जनवरी— 2025	18—फरवरी —2025	रू.5,15,303.00/– (पांच लाख पंद्रह हजार तीन सौ तीन रुपये मात्र) 15—फरवरी—2025 तक
- 3	सरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति का विवरणः पदा र	नंख्या—23 बर	क संख्या २२ की	आवासीय संपत्ति का टकडा और पार्सल ग्राम

एनपीए की डिमांड नोटिस

पंचायत–आमा, पंचायत समिति–कोटडी, गांव–मांकडी, तहसील–कोटडी, जिला–भीलवाडा–राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल 1769 वर्ग फीट, मापः पूर्व — 30.6 फीट, पश्चिमः 30.6 फीट, उत्तर : 58 फीट, दक्षिणः 58 फीट चारों ओरः पूर्वः धर्मराज जाट का घर पश्चिमः सार्वजनिक मार्ग उत्तरः भीमाजी जाट का घर दक्षिणः घर भंवर जी जाट

2	ऋण खाता संख्या MHFLCONUDR000005014171	29—जनवरी—	18—फरवरी	<b>ৰু.5,27,182.00/</b> –
	1.मुकेश मेघवाल	2025	-2025	(पांच लाख सताईस हजार सात सौ बयासी रुपये
	2.जावर लाल, 3.गुडी बाई			मात्र) 15—फरवरी—2025 तक

**स्रक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति का विवरणः** पट्टा संख्या 4180 पर आवासीय संपत्ति का टुकड़ा और पार्सल, ग्राम पंचायत – रामा, पंचायत समिति, बड़गांव, जिला – उदयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफल 965.62 वर्ग फीट कुल क्षेत्रफल 965.62 वर्ग फीट पूर्व से पश्चिम - 25.9 फीट उत्तर से दक्षिण –37.6 फीट घिरा हुआः पूर्वः – रास्ता पश्चिमः– गली उत्तरः गली दक्षिणः रास्ता

ऋण खाता संख्या MHFLCONSHA000005012330	29—जनवरी—	20—फरवरी	<b>ৰু.2,55,580.00/–</b>
1.मादा राम	2025	-2025	(रुपये दो लाख पचपन हजार पांच सौ अस्सी मात्र)
2.संगीता देवी, 3.बाबू लाल	y		15—फरवरी—2025 तक

**सुरिक्षत संपत्ति/अचल संपत्ति का विवरणः** संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, प्लॉट खाता संख्या 91, आराजी खसरा संख्या 237, क्षेत्रफल 0.39 हेक्टेयर, खसरा संख्या 237 में 65 / 186 भाग में से चाही ।।, कुल क्षेत्रफल 2821 वर्ग फीट यानी 313.44 वर्ग गज है, जिस पर मकान बना हुआ है और यह वकई ग्राम झगडत कलां तहसील, पटवार मंडल नीमचना, नारायणपुर जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2821 वर्ग फीट यानी 1,000 वर्ग फीट है। 313.44 वर्ग गज उत्तर की ओर: 117 फीट दक्षिण की ओरः 100 फीट पूर्व की ओरः 26 फीट पश्चिम की ओरः 26 फीट पूर्व की ओरः सार्वजनिक मार्ग पश्चिम की ओरः

यदि उक्त उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और गारंटर एमएचएफसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो एमएचएफसीएल ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति पर कब्जा करने का हकदार होगा और कंपनी को कानून में उपलब्ध अन्य कार्रवाई करेगा, जो पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणामों पर होगी। उक्त उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और गारंटर को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (13) के प्रावधान के तहत एमएचएफसीएल की पूर्व सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या नोटिस में संदर्भित अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध

रामअवतार की जमीन उत्तर की ओर: मोहर सिंह की जमीन दक्षिण की ओर: माखन लाल का घर

स्थानः राजस्थान, दिनांकः ०४ मार्च, २०२५ हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी - मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

www.readwhere.com

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

सत्वा माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट निर्मिटेड

की जमीन

Chandigarh